

(d) In liquidity trap, interest is :
तलता के जाल में व्याज की दर होती है :

(i) Perfectly elastic
पूर्णतः लोचदार

(ii) Perfectly inelastic
पूर्णतः अलोचदार

(iii) Equal to unity
इकाई के बराबर

(iv) None of the above

उपरोक्त में से कोई नहीं

(e) Pareto optimality is concerned with :
पैरेटो अनुकूलतम की दशा कौन-सी है ?

(i) Optimal condition of production
उत्पादन की अनुकूलतम दशा

(ii) Optimal condition of allocation of resources
वस्तुओं की अनुकूलतम आवंटन की दशा

(iii) Optimal condition of distribution of income
वस्तुओं की अनुकूलतम आवंटन की दशा

(iii) Optimal condition of use of resources
वस्तुओं की अनुकूलतम प्रयोग की दशा

(iv) All of the above
उपरोक्त में से सभी

[B] Write short answer of the following :
5×2 = 10

निम्नलिखित का संक्षिप्त उत्तर दें :

(i) Features of monopolistic competition
एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषताएँ

(ii) Liquidity Trap
तलता जाल

2. Explain Equilibrium of Firm and Industry under Perfect Competition in short and long run.
पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में फर्म एवं उद्योग की संतुलन की व्याख्या करें ।

(5)

(Turn over)

दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का
करें :

(a) Equilibrium under Monopoly is possible
when :

एकाधिकारी के अन्तर्गत संतुलन कब सम्भव हो सकता
है ?

- (i) $MR < MC$
- (ii) $MR = MC$
- (iii) $MR > MC$
- (iv) None of the above

उपरोक्त में से कोई नहीं

(b) Under Perfect Competition Price is
determined when ?

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण कब
होता है ?

- (i) Supply > demand
- (ii) Supply < demand

QZ-92/3

(2)

Contd.

(iii) Supply = demand

(iv) All of the above

उपर्युक्त सभी

(c) Modern theory of Rent is equal to :

लगान का आधुनिक सिद्धान्त बराबर है :

(i) Actual Earning - Transfer
Earning

वास्तविक आय - हस्तान्तरण आय

(ii) Actual Earning = Transfer
Earning

वास्तविक आय = हस्तान्तरण आय

(iii) Actual Earning + Transfer
Earning

वास्तविक आय + हस्तान्तरण आय

(iv) None of the above

उपरोक्त में से कोई नहीं

(3)

(Turn over)

QZ-92/3

3. Examine price output determination under discrimination. विभेदक एकाधिकारी के अन्तर्गत मूल्य एवं उत्पादन के निर्धारण को बतायें।

20

4. Critically examine marginal productivity theory of distribution. वितरण की सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का आलोचनात्मक समीक्षा करें।

20

5. Explain modern theory of Rent. लगान की आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करें।

20

6. Explain "Interest is the reward Parting with Liquidity". "व्याज तरलता का पुरस्कार है" — व्याख्या करें।

20

7. Examine wage determination under Collective Bargaining. सामूहिक सौदेबाजी के अन्तर्गत मजबूरी निर्धारण को बतायें।

20

QZ-92/3

(6)

Contd.

केंद्र के जोखिम एवं अनिश्चितता सिद्धान्त की विवेचना करें।



QZ-92/3 (1,700)

(7) UGDS(III)—Eco (805)H

2018

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in
their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

Answer any **four** questions in which

Q. No. 1 is compulsory.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्र० सं० १ अनिवार्य है ।

1. [A] Select the correct option from the given

options :

2×5 = 10

QZ - 92/3

(Turn over)